



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 31 अगस्त, 2022

भाद्रपद 9, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2262/नौ-1-2022-29परि०-2022

लखनऊ, 31 अगस्त, 2022

अधिसूचना

प०आ०-552

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11 ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 1195/9-1-2022-13परि०-22, दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् नगर पंचायत हरगाँव, जिला सीतापुर के नगर पंचायत क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 14 वार्डों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची

नगर पंचायत हरगाँव, जिला सीतापुर का परिसीमन

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
1	2	3
1	जहाँगीराबाद	उत्तरी भाग दतेली रोड तक। दक्षिणी भाग वार्ड के समीप चकमार्ग तक। पूर्वी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड तक। पश्चिमी भाग हरिकेश के खेत से अवधेश गुप्ता के खेत तक विस्तारित।

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
1	2	3
2	मुरादनगर	उत्तरी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड मसरूर अहमद स्मृति द्वार से कब्रिस्तान तक। दक्षिणी भाग प्रतापनरायण, महेश, राजकुमार आदि के खेत एवं खाद के गड्ढे तक विस्तारित। पूर्वी भाग नेपाल सिंह महाविद्यालय से मुरादनगर कब्रिस्तान तक। पश्चिमी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड एवं पेट्रोल पम्प के सामने मिल बाउण्ड्री तक विस्तारित।
3	दीपपुर	उत्तरी भाग परसेहरा शरीफपुर रोड। दक्षिणी भाग बिड़ला मन्दिर एवं नगर पंचायत सीमा तक। पूर्वी भाग नहर तक। पश्चिमी भाग सरफी के खेत से बिड़ला मन्दिर पीछे तालाब तक विस्तारित।
4	तीर्थ	उत्तरी भाग लहरपुर रोड एवं कृषि भूमि रामपुरबरौरा तक। दक्षिणी भाग बस्ती रोड। पूर्वी भाग तीर्थ रोड तक। पश्चिमी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड तक।
5	हरगाँव गंज	लहरपुर रोड का उत्तरी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड से नेपाल सिंह महाविद्यालय रोड का दक्षिणी भाग रेलवे लाइन एवं सीतापुर- लखीमपुर रेलवे रोड का पूर्वी भाग नगर पंचायत कार्यालय भवन एवं कृषि भूमि का पश्चिमी भाग
6	गुरुदेवनगर	उत्तरी भाग वार्ड शुगर मिल बाउण्ड्री तक। दक्षिणी भाग दतेली रोड तक। पूर्वी भाग रेवले लाइन तक। पश्चिमी भाग नहर तक।
7	रामपुरबरौरा	उत्तरी भाग उर्वसी के खेत से उमाकान्त शुक्ला के खेत तक। दक्षिणी भाग मोक्ष द्वार से शब्बीर के मकान तक पूर्वी भाग शरीफ के मकान से गन्दे नाला तक। पश्चिमी भाग तीर्थ रोड तक।
8	पिपरा	उत्तरी भाग जर्जर के खेत से चकमार्ग तक विस्तारित। दक्षिणी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड मसरूर अहमद स्मृति द्वार से कब्रिस्तान तक। पूर्वी भाग कब्रिस्तान से चकमार्ग तक। पश्चिमी भाग रेलवे लाइन एवं धर्मकाटा तक विस्तारित।
9	शुगर मिल	उत्तरी भाग बेलीधारा चकमार्ग उमेश के खेत से रेलवे लाइन तक। दक्षिणी भाग परसड़ा मिल बाउण्ड्री से हड़हन पुरवा मिल बाउण्ड्री तक। पूर्वी भाग नहर तक। पश्चिमी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड तक।
10	जलालीपुर	उत्तरी भाग कब्रिस्तान तक। दक्षिणी भाग इस्मालपुर रोड तक। पूर्वी भाग कब्रिस्तान तक। पश्चिमी भाग तरपतपुर की सीमा तक।
11	तरपतपुर	उत्तरी भाग बस्ती रोड। दक्षिणी भाग कैलाश चन्द्र के खेत से ताजिया वाली रोड तक। पूर्वी भाग इस्माइलपुर रोड से कब्रिस्तान तक। पश्चिमी भाग गोने के खेत से उर्मिला के खेत तक।

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
1	2	3
12	काजीटोला	उत्तरी भाग बस्ती रोड तक। दक्षिणी भाग पिथुवा देवी मार्ग तक। पूर्वी भाग कालिका के मकान से राजेश सीतापुरी के मकान तक। पश्चिमी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड तक।
13	सरॉयपिथू	उत्तरी भाग पिथुवा देवी रोड तक। दक्षिणी भाग शिवसागर के मकान से बुद्धा मौर्य के खेत तक विस्तारित। पूर्वी भाग सरीफ के मकान से सोबरन के खेत तक। पश्चिमी भाग सीतापुर-लखीमपुर रोड तक।
14	जोशीटोला	उत्तरी भाग बस्ती रोड। दक्षिणी भाग महादेवन रोड। पूर्वी भाग बस्ती रोड। पश्चिमी भाग कालिका के मकान से सुशील व श्रीनिवास मकान की गली तक।

आज्ञा से,  
अमृत अभिजात,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2262/IX-1-2022-29Pari.-2022, dated August 31, 2022:

No. 2262/IX-1-2022-29Pari.-2022

*Dated Lucknow, August 31, 2022*

IN exercise of the powers under section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor, after considering objections received in pursuance of the order published in the *Gazette vide* notification no. 1754/IX-1-2022-29Pari.-22, dated June 30, 2022 under sub-section (2) of the said section, is pleased to divide the Municipal Area of Nagar Panchayat Hargaon, District Sitapur into 14 wards as mentioned in Column-2 of the Schedule below. The extent of every ward shall be such as mentioned against it in Column-3 of the said Schedule.

#### SCHEDULE

#### Delimitation of Nagar Panchayat Hargaon, District Sitapur

Ward No.	Name of Wards	Extent of Ward
1	2	3
1	Jahangeerabad	Northern Part till Dateli road. Up to Chakmarg near the southern part ward. Eastern up to Sitapur-Lakhimpur road. Western Part extended from the Harikesh to Awadhesh Gupta field.
2	Murad Nagar	Northern Part of Sitapur road from Masroor Ahmad smriti gate to Kabristan. Southern Part of Pratapnarayan, Mahesh, Rajkumar Etc. field & Compost Pits. Eastern Part from Nepal Singh Mahavidyalaya to Muradnagar Kabristan. Western Part of Sitapur- Lakhimpur road up to mill boundry in front of Petrol pump.
3	Deeppur	Northern Part Pasehra Sharifpur Road. Southern part up to Birla Mandir and NP Limit. Eastern part up to the Canal. Western part from Sarif's field to the pond behind Birla Mandir extended.

Ward No.	Name of Wards	Extent of Ward
1	2	3
4	Teerth	Northern part of Laharpur Road. Southern part Basti Road. Eastern part till Teerth Road. Western part up to Sitapur-Lakhimpur Road.
5	Hargaon Ganj	Northern Part of Laharpur road. Southern Part of Nepal Singh Degree College road from Sitapur to Lakhimpur road. Eastern Part of Railway Line & Railway road from Sitapur to Lakhimpur road. Western Part of N.P. Office building & Agricultural land.
6	Gurudew Nagar	Northern part up to Ward Sugar Mill Boundary. Southern part till Dateli Road. Eastern Part up to railway line. Western Part up to the Canal.
7	Rampurbaraura	Northern Part from the field of Urvasi to the field of Umakant Shukla. Southern part from Moksha Dwar to Shabbir's House. Eastern part from Sharif's house to Ganda Nala. Western part till Teerth Road.
8	Pipra	Northern part extended from the fields of Jarrar to Chakmarg. Southern part Sitapur-Lakhimpur Road from Masroor Ahmad smriti gate to the Kabristan. Eastern part from the Kabristan to Chakmarg. Western part extended up to railway line and Dharmkanta.
9	Sugar Mill	Northern Belithara Chakmarg from Umesh's field to railway line. Southern part Parsada Mill Boundary to Harhanpurwa Mill Boundary. Eastern part up to the Canal. Western part up to Sitapur-Lakhimpur Road.
10	Jalalipur	Northern part to the Kabristan. Southern part till Ismailpur Road. Eastern part to the Kabristan. Western part up to the extent of Tarpatpur.
11	Tarpatpur	Northern part Basti Road. Southern part from the fiels of Kailash Chandra to Tajiya Road. Eastern part Ismailpur Road to Kabristan. Western from Gone's fiels to Urmila's field.
12	Kajitola	Northern part till Basti Road. Southern part till Pithuva Devi street. Eastern part from the house of Kalika to the house of Rajesh Sitapuri. Western part up to Sitapur-Lakhimpur Road.
13	Sarayanpitthu	Northern part till Pithuva Devi Road. Southern part extended from the house of Shivsagar to the field of Buddha Maurya. Eastern part from Sarif's house to Sobran's field. Western part up to Sitapur-Lakhimpur Road.
14	Joshitola	Northern part Basti Road. Southern part Mahadewan Road. Eastern part Basti Road. Western part from Kalika's house to Sushil and Srinivas's house Street.

By order,  
AMRIT ABHIJAT,  
Pramukh Sachiv.